

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 187

No. 07]

DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/PAUSA 21, 1937

[N.C.T.D. No. 187

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आबकारी आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

सं. फा. 10(56)96-97/आई.एम.एफ.एल./आब./5169-5183.—दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि में निम्नलिखित तारीखों/दिनों को मद्य-निषेध दिवसों के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-18, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-7एल-26, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, लाईसेंसधारियों और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

क्र.सं.	अवसर	दिनांक
1	गणतंत्र दिवस	26.01.2016
2	गुरु रविदास जयंती	22.02.2016
3	स्वामी दयानन्द सरस्वती जयंती	04.03.2016
4	महाशिवरात्रि	07.03.2016
5	होली	24.03.2016
6	गुड फ्राइडे	25.03.2016



7	रामनवमी	15.04.2016
8	महावीर जयंती	20.04.2016
9	बुद्ध पूर्णिमा	21.05.2016
10	ईद-उल-फितर*	06.07.2016
11	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2016
12	जन्माष्टमी	25.08.2016
13	ईद-उल-जुहा (बकरीद)*	12.09.2016
14	महात्मा गांधी जयंती	02.10.2016
15	दशहरा	11.10.2016
16	मोहर्रम	12.10.2016
17	महर्षि बाल्मिकी जयंती	16.10.2016
18	दिवाली	30.10.2016
19	गुरु नानक देव जयंती	14.11.2016
20	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24.11.2016
21	मिलाद-उन-नबी (ईद-ए-मिलाद)* (पैगम्बर साहब का जन्मदिवस)	13.12.2016

\*चाँद के दिखाई जाने के आधार पर

सभी एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-22, एल-28, एल-29, पी -10 और पी -13

लाईसेंसधारी निम्नलिखित तारीखों/दिनों को मद्य-निषेध दिवसों के रूप में मनायेंगे।

क्र.सं.	अवसर	दिनांक
1	गणतंत्र दिवस	26.01.2016
2	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2016
3	महात्मा गांधी जयंती	02.10.2016

ऊपरलिखित आदेश इस शर्त पर किये जाते हैं कि आबकारी आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली शासन के उपराज्यपाल की अनुमति से ऊपरलिखित सूची के अलावा निम्नलिखित के बारे में कभी भी मद्य-निषेध दिवस घोषित कर सकते हैं :-

- परकामय लिखित अधिनियम की धारा 25 के अनुसार छुट्टी के रूप में घोषित कोई तिथि या दिन,
- भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/भाग में कराये जाने वाले किसी चुनाव/उपचुनाव में मतदान की तिथि/दिन अथवा उससे तुरन्त दो दिन पहले, अथवा
- आपात स्थिति में अन्य तिथि/दिन के रूप में मनाया जाना या उक्त सूची में कोई दिन हटाया जाना हो।

लाईसेंसधारी उक्त सूची के अंतर्गत किये जाने वाले परिवर्तन के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

उक्त लिखित मद्य-निषेध दिनों में शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबंध, लाईसेंसधारी एल-15 की स्थिति में वहां ठहरे मेहमानों को शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाईसेंसधारी इस सूची को अपने लाइसेंस परिसर में उचित स्थान पर दर्शायेंगे।

संजय कुमार, आबकारी आयुक्त



## OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE

## NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2016

**No. F. 10(56)/96-97/IMFL/Ex/5169-5183.**—In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as “Dry Day” during the period commencing from 1.1.2016 to 31.12.2016 in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-18, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34 and L-35 licensees and opium vends located in Delhi.

<u>Sl. No.</u>	<u>Occasion</u>	<u>Date</u>
1.	Republic Day	26.01.2016
2.	Guru Ravidas Birthday	22.02.2016
3.	Swami Dayanand Saraswati Jayanti	04.03.2016
4.	Maha Shivaratri	07.03.2016
5.	Holi	24.03.2016
6.	Good Friday	25.03.2016
7.	Ram Navami	15.04.2016
8.	Mahavir Jayanti	20.04.2016
9.	Buddha Purnima	21.05.2016
10.	Idu'l Fitr*	06.07.2016
11.	Independence Day	15.08.2016
12.	Janamashtami	25.08.2016
13.	Id-UI-Zuha (Bakrid)*	12.09.2016
14.	Mahatma Gandhi's Birthday	02.10.2016
15.	Dussehra	11.10.2016
16.	Muharram	12.10.2016
17.	Maharishi Valmiki's Birthday	16.10.2016
18.	Diwali (Deepavali)	30.10.2016
19.	Guru Nanak's Birthday	14.11.2016
20.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	24.11.2016
21.	Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad (Birthday Of Prophet Mohammad)*	13.12.2016

\* Subject to appearance of the Moon



All L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-22, L-28, L-29, P-10 and P-13 licensees shall observe only the following days as dry days:

- |    |                           |            |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Republic Day              | 26.01.2016 |
| 2. | Independence Day          | 15.08.2016 |
| 3. | Mahatma Gandhi's Birthday | 02.10.2016 |

The above order is subject to the provision that the Commissioner of Excise, with approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, may at any time, declare any dry day in addition to above, in respect of :—

- a. Any date/day notified as holiday Under Section 25 of the Negotiable Instruments Act,
- b. The day/date of polling and two days immediately preceding the day/date of polling during any election/bye election to be conducted by the Election Commission of India within the National Capital Territory of Delhi,
- c. Any other date/day desired to be observed as such in emergent cases or may delete any date from the above list.

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

The restriction of sale on liquor on dry days mentioned above shall not apply to the service of liquor to residents in case of hotels having L-15 licence.

All the licensees shall exhibit this list at some conspicuous place of their licensed premises.

SANJAY KUMAR, Commissioner of Excise